



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
भारत मौसम विज्ञान विभाग
गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 21-06-2022

नैनीताल(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2022-06-21 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2022-06-22	2022-06-23	2022-06-24	2022-06-25	2022-06-26
वर्षा (मिमी)	5.0	0.0	0.0	0.0	5.0
अधिकतम तापमान(से.)	21.0	24.0	25.0	25.0	24.0
न्यूनतम तापमान(से.)	13.0	14.0	14.0	14.0	14.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	65	65	70	75
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	30	30	30	35	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	6.0	8.0	6.0	6.0	6.0
पवन दिशा (डिग्री)	130	230	250	110	140
क्लाउड कवर (ओक्टा)	3	2	0	4	5

मौसम सारांश / चेतावनी:

आगामी पांच दिनों में, 21 व 25 जून को हल्की वर्षा होने की सम्भावना है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 21.0 से 25.0 व 13.0 से 14.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। हवा के 6.0-8.0 किमी/ घंटे की गति से दक्षिण-पश्चिम, पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम तथा दक्षिण-पूर्व, पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा से चलने का अनुमान है। चेतावनी: आज यानी 21 जून को कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली व ओला गिरने तथा तीव्र बौछार पड़ने की संभावना है। ईआरएफएस के अनुसार, 26 जून से 2 जुलाई के दौरान राज्य में वर्षा व न्यूनतम तापमान समान्य तथा अधिकतम तापमान समान्य से कम रहने का अनुमान है।

सामान्य सलाहकार:

किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" तथा आकाशीय बिजली के पूर्वानुमान हेतु "दामिनी ऐप" डाउनलोड करें। मेघदूत व दामिनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर (एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं) और ऐप सेंटर (आईओएस उपयोगकर्ताओं) से डाउनलोड किया जा सकता है।

लघु संदेश सलाहकार:

21 व 25 जून को हल्की वर्षा हो सकती है तथा शेष दिन मौसम साफ रहेगा। 21 जून 2022 को कहीं-कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली व ओला गिरने तथा तीव्र बौछार पड़ने की चेतावनी है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सोयाबीन	भावर क्षेत्र में सोयाबीन फसल की बुवाई माह के अंतिम सप्ताह में करें।
चावल	सिंचित दशा में रोपाई का कार्य घाटी व कम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, माह के द्वितीय पखवाड़े में पूर्ण कर लें।
काला चना	पर्वतीय घाटी वाले क्षेत्रों में फसल की बुवाई माह के द्वितीय पखवाड़े में करें।
मूँग	पर्वतीय घाटी वाले क्षेत्रों में फसल की बुवाई माह के द्वितीय पखवाड़े में करें।
गुर्दे की फलियाँ / राजमा	माह के इस द्वितीय पखवाड़े में राजमा की बुवाई करें।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
सेब	मध्यम उँचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में सेब की अगेती प्रजातियों की तुड़ाई प्रारम्भ करे तथा मण्डियों में भेजे।
आड़ू	आड़ू, प्लम, खुमानी की अगेती किस्मों की तुड़ाई जारी रखें। गुठलीदार फलों को मण्डी भेजे।
टमाटर	टमाटर में फल बेधक का प्रकोप होने पर, क्लोरान्टा निलिप्रोले 18.5 एस0सी0, 150मि0ली0/है0 के छिड़काव के तीन दिन बाद या इन्डोक्साकार्ज 14.5 एस0सी0, 500मि0ली0/है0 की दर से छिड़काव के पाँच दिन बाद ही फल का उपयोग करें। रसायनों का छिड़काव मौसम पूर्वानुमान को ध्यान में रखकर करें।
गोभी	मध्यम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में बन्द गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली एवं गांठ गोभी की अल्प अवधि में तैयार होने वाली किस्मों का चयन कर पौधशाला में बीज बुवाई करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
भैंस	पशुओ को संक्रामक रोग से बचाने हेतु टीकाकरण करवायें।